



50,000/- रुपये का इनामिया डकैत विपिन पुलिस ने धर दबोचा

- ककवन में दोहरी हत्या और डकैती की घटना में था वांछित

- कमिश्नरेट की पुलिस टीमों ने शुक्रवार को दबोचे थे चार अभियुक्त

कानपुर। थाना क्षेत्र ककवन के अंतर्गत ग्राम फत्तेपुर में दिनांक 13 जनवरी 2023 को रात्रि के समय, अज्ञात बदमाशों के द्वारा राजकुमार पुत्र छम्मी लाल के घर में अंदर घुसकर, उसके वृद्ध पिता छम्मी लाल उम्र 78 वर्ष एवं माता इमरती देवी उम्र 75 वर्ष की गला घोट कर हत्या कर दी तथा उसकी पत्नी सपना को डरा धमका कर अलमारी में रखे आभूषण एवं नगदी लूटकर एवं सपना को बंधक बनाकर चले गये।

इस घटना में शामिल और फरार चल रहे 50 हजार के इनामी अभियुक्त विपिन को सर्विलांश टीम की मदद से शनिवार 21.01.2023 को ककवन से विषधन जाने वाली सड़क पर मनाववा पुल से 50 कदम पहले प्रीपल के पेड़ के नीचे से गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से लूटी गयी नगदी व आभूषण बरामद किये गये हैं। अभियुक्त से पूछताछ में उसके द्वारा अपना जुर्म कबूल किया गया।

नाम पता अभियुक्त

1. विपिन कुमार पुत्र कृष्ण चन्द्र उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम मऊ कछपुरा पोस्ट गूरा थाना बिधूना जनपद औरैया (नोएडा में फैक्ट्री में काम करता है)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विपिन कुमार पुत्र कृष्ण चन्द्र

1. मु0अ0सं0 466/ 2020 धारा 323/504/506 भादवि थाना बिधूना जनपद औरैया। 2. मु0अ0सं0 05/23 धारा 396/412 भादवि थाना ककवन कमिश्नरेट कानपुर नगर ।

अभियुक्तगणों से बरामदगी का विवरण 01 चैन पीली धातु, 01 नग पायल सफेद धातु, कमर बन्द का टूटा हुआ टुकड़ा, 02 सुपाड़ी सफेद धातु, 01 अंगूठी कछुआ छाप जिसके ऊपर लाल रंग है, 01 नग पैर का मीना/बिछिया, 4300/- रुपये, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 खोखा कारतूस .315 बोर शामिल रहे।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. एसएचओ श्री बृजमोहन सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना ककवन कमिश्नेट ककवन कानपुर नगर
2. उ0नि0 श्री प्रेमचन्द्र थानाध्यक्ष थाना अर्मापुर कमिश्नेट कानपुर नगर
3. उ0नि0 श्री शिव प्रताप सिंह प्रभारी एसओजी पश्चिम जोन कमिश्नेट कानपुर नगर
4. उ0नि0 यतीश कुमार टीम पश्चिम जोन कमिश्नेट कानपुर नगर
5. उ0नि0 सौरभ कुमार द्विवेदी थाना ककवन कमिश्नेटर कानपुर नगर
6. हे0का0 1195 आशीष कुमार थाना ककवन कमिश्नेट कानपुर नगर
7. का0 परशुराम सर्विलांस सेल टीम पश्चिम जोन कमिश्नेट कानपुर नगर
8. का0 अवधेश कुमार सर्विलांस सेल टीम पश्चिम जोन कमिश्नेट कानपुर नगर
9. का0 सतनाम सिंह सर्विलांस सेल टीम पश्चिम जोन कमिटारेट कानपुर नगर 10. का0 796 रजनेश कुमार थाना ककन कमिश्ने कानपुर नगर
11. का0 2019 राजवर्धन गंगवार थाना ककवन कमिश्नेट कानपुर नगर,